



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 2007/कार्तिक 22, 1929

No. 220]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 2007/KARTIKA 22, 1929

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 नवम्बर, 2007

फा. सं. भाप्रविबो/विधि/108045/2007.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, इण्टर-कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इंटर्नेशनल इनफोटेक पार्क, टॉवर 7, 5वीं मंजिल, वाशी, नवी मुम्बई-400 703 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 18 नवम्बर, 2007 को प्रारम्भ होने वाली और 17 नवम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में सविदाओं की बाबत शर्तों जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें के अध्वधीन प्रदान करता है।

जी. अनंतरामन्, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/IV/असा./69-जेड बी/2007]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th November, 2007

F. No. SEBI/LE/108045/2007.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by The Inter Connected Stock Exchange of India Limited having its Registered Office at International Infotech Park, Tower 7, 5th Floor, Vashi, Navi Mumbai -400 703 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 18th day of November, 2007 and ending on 17th day of November, 2008 in respect of contracts in securities subject to the conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

G. ANANTHARAMAN, Whole Time Member

[ADVT III/IV/Exty./69-ZB/2007]